

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 फरवरी 2019—फाल्गुन 4, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2019

क्र. 3300-54-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

## MADHYA PRADESH BILL

NO. 6 OF 2019

## THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 3) BILL, 2019

**A Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2018-2019.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

**Short title.**

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2019.

Issue of Rs. 1,22,21,03,200 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2018-19.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. One hundred twenty-two crore twenty-one lakh three thousand two hundred only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2018-2019 in respect of services and purpose specified in column (2) of the Schedule.

**Appropriation.**

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE  
(See Sections 2 and 3)

(1) No. of vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
	Charged Appropriation-Interest Payments and Servicing of Debt.			
	Revenue	0	50,14,00,000	50,14,00,000
01.	General Administration			
	Revenue	5,00,00,200	0	5,00,00,200
03.	Police			
	Revenue	100	0	100
05.	Jail			
	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
06.	Finance			
	Revenue	1,00,00,100	0	1,00,00,100
08.	Land Revenue and District Administration			
	Revenue	100	0	100
10.	Forest			
	Capital	400	0	400

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
12.	Energy	Revenue	200	0	200
14.	Animal Husbandry	Revenue	100	7,00,000	7,00,100
22.	Urban Development and Housing	Revenue	50,00,00,000	0	50,00,00,000
		Capital	1,00,00,200	0	1,00,00,200
24.	Public Works-Roads and Bridges	Capital	200	0	200
27.	School Education (Primary Education)	Revenue	300	0	300
		Capital	300	0	300
47.	Technical Education skill Development and Employment	Revenue	5,00,00,400	0	5,00,00,400
		Capital	100	0	100
48.	Narmada Valley Development	Capital	200	0	200
51.	Religious Trusts and Endowments	Revenue	300	0	300
	Total	Revenue —	71,00,01,800	50,21,00,000	1,21,21,01,800
		Capital —	1,00,01,400	0	1,00,01,400
		<b>Grand Total —</b>	<b>72,00,03,200</b>	<b>50,21,00,000</b>	<b>1,22,21,03,200</b>

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of article 204 (1) read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh of the moneys required to meet the supplementary expenditure charged on the consolidated fund of the State of Madhya Pradesh and the grants made by the Legislative Assembly for expenditure of the Government of Madhya Pradesh for the Financial Year 2018-2019.

2. Hence this Bill.

BHOPAL:

Dated the 17<sup>th</sup> February 2019.

TARUN BHANOT

Member-In-Charge.